

CHANNAR TOLI To DHOBIVAHNI TOL (25)

Schedule XLV-Form No. 134

FDR

2021-22

BENIPUR

DIVISION

BENIPUR SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

M.B.No-1493

Sch. XLV—Form No. 134

BENIPUR DIVISION

BENIPUR SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1493

Name of Officer अशोक कुमार
सहायक अभिभंता - बेनीपुर

Date of first entry _____

Date of last entry _____

M. B. No - 1493

FDR/2021-22

INDEX

PAGE

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी
पुस्तक में कुल 100 (एक सौ) (पन्ने) हैं जिस को
सहायक अभियंता अशोक कुमार ग्रामीण
कार्य विभाग कार्य अवर प्रमंडल
बेनीपुर नाम से निर्गत किया जाता है

28/7/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल बेनीपुर (दरभंगा)

28/7/21

Name to work—

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	<u>Record road</u>				
N/A - <u>Temporary road</u>					
<u>Bridge & length</u>					
<u>of Chamanfold & Dhobiyah</u>					
<u>road</u>					
N/A - <u>Departmental</u>					
<u>Date of road</u>					01.11.2024

① Ridge & Flap brick
beds in distance

— 20 — 60

VFT 09 BP →

$$4.00 \times \frac{0.90 + 1.10}{2} \times \frac{0.20 + 0.30}{2} = 1.00 \text{ m}$$

$$1.00 \times \frac{0.80 + 1.20}{2} \times \frac{0.20 + 0.80}{2} = 0.25 \text{ m}$$

$$2 \times 1.00 \times \frac{0.90 + 1.10}{2} \times \frac{0.30 + 0.40}{2} = 0.55 \text{ m}$$

$$2 \times 1.00 \times \frac{0.85 + 1.15}{2} \times \frac{0.15 + 0.30}{2} = 0.45 \text{ m}$$

$$1.00 \times \frac{0.20 + 1.10}{2} \times \frac{0.15 + 0.25}{2} = 0.20 \text{ m}$$

Continuation

— 20 — 2.45 m



Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		13.12	—		2.45 m ²
1.00 x	1.40 + 1.60	x	0.20 + 0.30		0.38 m ²
	2		2		
1.50 x	1.30 + 1.70	x	0.15 + 0.25		0.45 m ²
	2		2		
12.00 x	1.50 + 2.50 + 1.00				
	3				
	0.30 + 0.40				2.00 m ²
	2				
2.50 x	1.60 + 1.20	x	0.20 + 0.30		0.69 m ²
	2		2		
1.80 x	0.85 + 1.15	x	0.30 + 0.25		0.50 m ²
	2		2		

1.50	$\times$	$\frac{1.40 + 1.60}{2}$	$\times$	$\frac{0.25 + 0.35}{2}$	0.68
4.00	$\times$	$\frac{1.80 + 2.20}{2}$	$\times$	$\frac{0.25 + 0.30}{2}$	2.20
1.80	$\times$	$\frac{2.40 + 2.60}{2}$	$\times$	$\frac{0.20 + 0.30}{2}$	1.13
12.00	$\times$	$\frac{1.00 + 1.50 + 2.00}{3}$	$\times$	$\frac{0.30 + 0.40}{2}$	6.30
2.00	$\times$	$\frac{0.85 + 1.15}{2}$	$\times$	$\frac{0.20 + 0.40}{2}$	0.85
2.00	$\times$	$\frac{1.10 + 1.30}{2}$	$\times$	$\frac{0.15 + 0.25}{2}$	0.48
2.00	$\times$	$\frac{0.95 + 1.05}{2}$	$\times$	$\frac{0.30 + 0.40}{2}$	0.80

Continuation

CSO - 23.21

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		B-D —			23.71 w
2.50 w	3.40	$\frac{3.50 + 3.00}{2}$	$\times \frac{0.30 + 0.35}{2}$		0.60
1.00 w	3.50	$\frac{3.50 + 4.00}{2}$	$\times \frac{0.30 + 0.40}{2}$		1.31
1.50 w	3.40	$\frac{3.90 + 3.70}{2}$	$\times \frac{0.25 + 0.35}{2}$		1.69
2.00 w	0.80	$\frac{1.20 + 1.20}{2}$	$\times \frac{0.25 + 0.30}{2}$		0.55
1.00 w	1.80	$\frac{2.00 + 2.00}{2}$	$\times \frac{0.20 + 0.30}{2}$		0.50
2.00 w	0.90	$\frac{1.10 + 1.10}{2}$	$\times \frac{0.25 + 0.35}{2}$		0.60

1.00x	1.40 + 1.60		
	<u>2</u>		
1.00x	0.70 + 0.40		0.45
	<u>2</u>		
3.50x	3.80 + 4.20	0.15 + 0.25	2.80
	<u>2</u>	<u>2</u>	
4.00x	1.40 + 1.50	0.20 + 0.25	1.28
	<u>2</u>	<u>2</u>	
8.50x	1.10 + 1.40	0.30 + 0.20	2.66
	<u>2</u>	<u>2</u>	
2.00x	0.90 + 1.085	0.25 + 0.35	0.60
	<u>2</u>	<u>2</u>	
2.00x	2.80 + 3.20	0.45 + 0.25	1.20
	<u>2</u>	<u>2</u>	
1.00x	3.50 + 4.00	0.20 + 0.30	0.90
	<u>2</u>	<u>2</u>	
2.00x	3.60 + 3.90	0.25 + 0.35	2.25
	<u>2</u>	<u>2</u>	

Continuation

50 -

41.09 ml

Sch. XLV—Form No. 134

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

① Only 2 BWP office
back

Vitroir P ④ 43.12 m

@ 2004.96 - 86454.4

Ad 12x 657 10,374.4

Ad 1x 100 865.4

Ad 50

43.12 x 1032.0 x 0.10 4450.4

Total 1,02,843.4

at 102140.0

Continuation

Suman
14/2/22
AS

20/02/22
ET

14/1/22
O 102
Bach